

Soto no hoo ga ii desu

बाहर ज़्यादा अच्छा रहेगा।



नाटिका

あやか : タム、中<sup>なか</sup>に座<sup>すわ</sup>る?

ताम, अन्दर बैठोगी?

आयाका Ta<sup>na</sup>mu, na<sup>ka</sup> ni suwaru?

それとも、外<sup>そと</sup>のデッキ<sup>い</sup>に行く?

या फिर बाहर वाले डैक पर जाओगी?

Soreto<sup>mo</sup>, so<sup>to</sup> no de<sup>kki</sup> ni iku?

タム : 外<sup>そと</sup>のほうがいいです。

बाहर ज़्यादा अच्छा रहेगा।

ताम So<sup>to</sup> no ho<sup>o</sup> ga i<sup>i</sup> de<sup>su</sup>.

わあ、富士山<sup>ふじさん</sup>! きれい!

वाह, फुजि पर्वत ! कितना सुन्दर है!

Waa, Fu<sup>ji</sup>-san! Ki<sup>ree</sup>!

あやか : 本当<sup>ほんとう</sup>。

सचमुच।

आयाका Hontoo.

タム : 気持ち<sup>きもち</sup>いい!

बहुत अच्छा लग रहा है!

ताम Kimochi i<sup>i</sup>!

あやか : 今日<sup>きょう</sup>は、晴<sup>は</sup>れてよかったね。

अच्छा हुआ आज मौसम साफ़ है।

आयाका Kyo<sup>o</sup> wa, ha<sup>re</sup>te yo<sup>katta</sup> ne.

शब्दावली

なか 中 अन्दर

na<sup>ka</sup>

すわ 座る बैठना

suwaru

それとも या फिर

soreto<sup>mo</sup>

そと 外 बाहर

so<sup>to</sup>

デッキ जहाज़ का डैक

de<sup>kki</sup>

富士山<sup>ふじさん</sup> फुजि पर्वत

Fu<sup>ji</sup>-san

きれい(な) सुन्दर

ki<sup>ree</sup> (na)

気持ち<sup>きもち</sup>いい अच्छा लगना

kimochi i<sup>i</sup>

晴<sup>は</sup>れる साफ़ मौसम होना

hare<sup>ru</sup>

मुख्य वाक्यांश

そと  
外のほうがいいです。

So<sup>to</sup> no ho<sup>o</sup> ga i<sup>i</sup> de<sup>su</sup>.

बाहर ज़्यादा अच्छा रहेगा।

दो चीज़ों की तुलना करने के लिए कहें “(A yori) B no hoo ga + [विशेषण]”। इसका अर्थ है कि B का कोई गुण A की तुलना में ज़्यादा या बेहतर है। जब वाक्य से यह साफ़ पता चल रहा हो कि किन दो चीज़ों की तुलना हो रही है तब आप “A yori” वाला भाग छोड़ सकते हैं।

अभ्यास करें!

ようしつ わしつ  
洋室と和室、どちらがよろしいですか。

Yooshitsu to washitsu, do<sup>chira</sup> ga yoroshi<sup>i</sup> de<sup>su</sup> ka.

कैसा कमरा अच्छा रहेगा, पश्चिमी शैली का या जापानी शैली का?

ようしつ わしつ ひろ  
洋室より和室のほうが広いですね。和室にします。

Yooshitu yo<sup>ri</sup> washitsu no ho<sup>o</sup> ga hiro<sup>i</sup> de<sup>su</sup> ne. Washitsu ni shima<sup>su</sup>.

पश्चिमी शैली के कमरे से जापानी शैली का कमरा बड़ा है न? जापानी शैली का कमरा लेंगे।

कोशिश करें!


(Aより) Bのほうが[ विशेषण ]です(ね)。

(A से) B ज़्यादा [विशेषण] है (न?)

(A yo<sup>ri</sup>) B no ho<sup>o</sup> ga [विशेषण] de<sup>su</sup> (ne).

① A 肉      B 魚      好き(な)  
niku<sup>1</sup>      sakana      suki<sup>1</sup> (na)  
मांस      मछली      पसन्द

② B この店      安い  
kono mise<sup>1</sup>      yasui<sup>1</sup>  
ये दुकान      सस्ती



दिन और सप्ताह

दिन	बीता हुआ कल	आज	आने वाला कल
	kinō <sup>o</sup> / kinoo	kyō <sup>o</sup>	ashita <sup>1</sup>
सप्ताह	पिछला सप्ताह	यह सप्ताह	अगला सप्ताह
	senshuu	konshuu	raishuu



सम्बन्धित शब्द



घूमें मी या के साथ

## फुजि पर्वत की चढ़ाई

फुजि पर्वत जापान का सबसे ऊँचा पहाड़ है। इसकी ऊँचाई 3,776 मीटर है और इसकी चढ़ाई कर सकते हैं। चढ़ाई करने का मौसम जुलाई से सितम्बर के शुरू तक होता है। इस पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए कई रास्ते हैं। उनमें से सबसे लोकप्रिय है पाँचवें स्टेशन तक बस से जाकर वहाँ से चढ़ाई शुरू करना।



दूर-दूर तक फैले बादल और नीचे का खूबसूरत दृश्य देखकर लोग चढ़ाई की थकान भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग रात को सातवें या आठवें स्टेशन पर ठहरते हैं और सुबह जल्दी उठ कर चोटी पर पहुँचकर सूर्योदय देखते हैं।

फुजि पर्वत की चोटी से दिखाई देने वाला दृश्य



फुजि पर्वत की चोटी से सूर्योदय



Mt. Fuji Climbing Official website

उत्तर

- ① 肉にくよりより魚さかなのほうほうが好すきです。  
② この店みせのほうほうが安やすいですね。

Niku' yori sakana no ho'o ga suki' de'su.

Kono mise no ho'o ga yasui' de'su ne.